

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक 05 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय निरीक्षणालय नैनीताल हेतु वित्तीय वर्ष, 2017-18 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान हेतु अधिष्ठान मद की सुसंगत मदों में स्वीकृत बजट प्राविधानित कुल ₹1,10,000.00 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न अलोटमेंट आईडी H18010700689 दिनांक 02 जनवरी, 2018 में दिये गये विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुए मित्तव्ययता की जायेगी।

3- उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1362/3(150)/xxvii(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष, 2017-18 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-07-कार्यालय निरीक्षणालय का अधिष्ठान, की सुसंगत मदों के अन्तर्गत आहरित किया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(कवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या 14 / xxxi(15)G/(बी-02) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

2- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।

3- वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।

5- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।

6- गार्ड फाईल।

(कवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

HOD, GAD/Census (9019)

आवंटन पत्र संख्या - 13/xxxi(15)G/2018

अलोटमेंट आई डी - H1801070069

अनुदान संख्या - 007

आवंटन पत्र दिनांक - 02-Jan-2018

DDO Name - District Magistrate Nainital (4217) . Treasury - Nainital (3600)

1: लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाये 00 -
 091 - संलग्न कार्यालय
 07 - कार्यालय निरीक्षणालय
 00 - कार्यालय निरीक्षणालय

मालक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	467000	50000	517000
03 - महंगाई भत्ता	50000	20000	70000
04 - यात्रा व्यय	1000	0	1000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000	0	1000
06 - अन्य भत्ते	44000	40000	84000
08 - कार्यालय व्यय	2000	0	2000
11 - लेखत सामग्री और फार्मों की छ	2000	0	2000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपत्ति	2000	0	2000
44 - प्रशिक्षण व्यय	7000	0	7000
47 - कम्प्यूटर अवरक्षण/तत्सम्बन्धी	5000	0	5000
	581000	110000	691000

Total Current Allotment To DDO in Above Schemes -

110000

[Handwritten Signature]